



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1645]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2017/ ज्येष्ठ 18, 1939

No. 1645]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2017/ JYAISTHA 18, 1939

Okkf.kT; vkj m | ks ea=ky;

10Okkf.kT; foHkkx½

1/4ons'k 0; ki kj egkfun's kky; ½

vf/kl puk

ubz fnYyhj 8 twj 2017

I a 09@2015&2020

fo"k; % vkbMhl h (, p, l)] 2017] vuq ph&I (vk; kr uhfr) dh vk; kr uhfr ds l Eca/k ea l kekl; fVli .kh ds i jk 9 ([k) ea l d kks/kuA

dk-vk- 1856½—समय समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) की आयात नीति के सम्बंध में सामान्य टिप्पणी के पैरा 9 (ख) में निम्नानुसार संशोधन करती है:

<p>vkbMhl h (, p, l)] 2017] vuq ph&I (vk; kr uhfr) dh vk; kr uhfr ds l Eca/k ea l kekl; fVli .kh dk ekstunk i jk 9 ([k)</p>	<p>vkbMhl h (, p, l)] 2017] vuq ph&I (vk; kr uhfr) dh vk; kr uhfr l s l Eca/k kr l kekl; fVli .kh dk l d kks/kr i jk 9 ([k)</p>
<p>([k) , fo; u buQy atk ds dkj.k vk; krka i j i frcak%</p> <p>देखे गए एवियन इन्फ्लूएंजा (हाइली पैथोजेनिक नोटीफाएबल एवियन इन्फ्लूएंजा और लो पैथोजेनिक नोटीफाएबल एवियन इन्फ्लूएंजा दोनों) को देखते हुए भारत में सभी देशों से निम्नलिखित पशु-धन और पशु-धन उत्पादों का आयात प्रतिबंधित रहेगा:</p> <p>(i) घरेलू और जंगली पक्षी (कुक्कुट और कैद में रखे जाने वाले पक्षियों को छोड़कर)</p> <p>(ii) असंसाधित मांस और मांस उत्पाद जंगली पक्षियों (कुक्कुट के अलावा) सहित एवियन प्रजातियों से</p> <p>(iii) घरेलू और जंगली पक्षियों (कुक्कुट के शुक्राणु के अलावा) के शुक्राणु।</p>	<p>([k) d d d v vkj d d d v mRi knka dk vk; kr%</p> <p>भारत में कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों का आयात पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 3 और 3क के तहत पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा जारी समय-समय पर यथा संशोधित सा.आ. 2337 (अ.), दिनांक 8 जुलाई, 2016 के अनुसार विनियमित होगा।</p>

<p>इसके अलावा, केन्द्र सरकार, निम्नलिखित पशु-धन और पशु-धन उत्पादों, नामतः देखे गए एवियन इन्फ्लूएंजा (हाइली पैथोजेनिक नोटीफाएबल एवियन इन्फ्लूएंजा और लो पैथोजेनिक नोटीफाएबल एवियन इन्फ्लूएंजा दोनों को) सूचित करने वाले देशों से भारत में आयात को प्रतिबंधित करती है:—</p> <p>(क) जीवित कुक्कुट और कैदी पक्षी;</p> <p>(ख) एक दिन के चूजें, बत्तखें, पेरू और अन्य नवजात पक्षियों की प्रजातियां;</p> <p>(ग) जंगली पक्षियों सहित एवियन प्रजातियों का असंसाधित मांस और मांस उत्पाद;</p> <p>(घ) अण्डे सेने की किया;</p> <p>(ङ.) अण्डे और अण्डे के उत्पाद (विशिष्ट पैथोजेन मुक्त अण्डे छोड़कर) ;</p> <p>(च) असंसाधित पंख;</p> <p>(छ) जीवित सुअर;</p> <p>(ज) पक्षियों से मिलने वाली रोग विज्ञान संबंधी सामग्री और जैविक उत्पाद;</p> <p>(झ) पशुओं को खिलाने अथवा कृषि अथवा औद्योगिक प्रयोग के लिए पशुओं से प्राप्त (पक्षियों से) उत्पाद;</p> <p>(ञ) कुक्कुट के शुक्राणु।</p>	
---	--

2- bl vf/kl ipuk dk i Hko% dQd/ vkj dQd/ mRi knka की आयात नीति संशोधित की जाती है और यह पशुधन आयात अधिनियम, 1898 के तहत जारी, समय-समय पर यथा संशोधित का.आ. 2337(अ.), दिनांक 8 जुलाई, 2016 के अनुसार विनियमित होगी।

[फा. सं. 01/89/180/विविध-77/एम-04/पीसी-2 (क)]

ए. के. भल्ला, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2017

No. 9/2015-2020

Subject : Amendment in Para 9 (B) of General Notes Regarding Import Policy of ITC (HS), 2017, Schedule- I (Import Policy).

S.O. 1856(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Para 9 (B) of General Notes Regarding Import Policy of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy), as under:—

Existing Para 9 (B) of General Notes Regarding Import Policy of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy)	Revised Para 9 (B) of General Notes Regarding Import Policy of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy)
<p><u>(B) Prohibition on Imports due to Avian Influenza:</u> Import into India of the following live-stock and live-stock products shall be prohibited from all countries, in view of notifiable Avian Influenza (both Highly Pathogenic notifiable Avian Influenza and Low Pathogenic notifiable Avian Influenza): (i) domestic and wild birds (excluding poultry and captive birds); (ii) unprocessed meat and meat products from Avian species including wild birds (except poultry); (iii) semen of domestic and wild birds (except semen of poultry). Further, the Central Government also prohibits the import into India from the countries reporting notifiable Avian Influenza (both Highly Pathogenic notifiable Avian Influenza and Low Pathogenic notifiable Avian Influenza), the following live-stock and live-stock products, namely: (a) Live poultry and captive birds; (b) day old chicks, ducks, turkey and other newly hatched Avian species; (c) unprocessed meat and meat products from Avian species including wild birds; (d) hatching eggs; (e) egg and egg products (except Specific Pathogen Free eggs); (f) unprocessed feathers; (g) live pig; (h) pathological material and biological products from birds; (i) product of animal origin (from birds) intended for use in animal feeding or for agricultural or industrial use; (j) Semen of poultry.</p>	<p><u>(B) Import of Poultry and Poultry Products:</u> The import of poultry and poultry products into India shall be regulated as per S.O. 2337(E) dated 8th July, 2016, as amended from time to time, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries under Section 3 and 3A of the Livestock Importation Act, 1898.</p>

2. **Effect of this Notification:** Import policy of **Poultry and Poultry Products** is revised and will be regulated as per S.O. 2337(E) dated 8th July, 2016, as amended from time to time, issued under the Livestock Importation Act, 1898.

[F.No. 01/89/180/Misc-77/AM-04/PC-2 (A)]

A. K. BHALLA, Director General of Foreign Trade